

संख्या एवी.28011/02/2013-ईआर

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2014

परिपत्र

विषय: नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना निदेशक (संयुक्त सचिव स्तरीय) के पद को भरा जाना।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार नगर विमानन क्षेत्र के सम्पूर्ण आयाम की बढ़ती शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया में है। विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का सृजन और विस्तार करना है ताकि, विमानन क्षेत्र में प्रगति और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। विश्वविद्यालय को समय पर आरंभ करने के लिए, प्रक्रियाओं की एकाधिक शाखाएँ हैं जिसे सुचारू रूप से समन्वित करने की जरूरत है। इसकी समग्र दृष्टि को भी ध्यान में रखना होगा। संघ मंत्रिमंडल ने कार्यान्वयन के अपने प्रथम चरण में आरजीएनएयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना के लिए 202 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को अनुमोदित किया है। तदनंतर, संसद के दोनों सदनों ने इस बिल को पारित कर दिया। भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, आरजीएनएयू का निर्माण किया गया। कार्यान्वयन से संबन्धित नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष टास्क उपस्थित किए गए। नागर विमानन मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के लिए उप कुलपति और परियोजना निदेशक के पद सृजित किए।

2. परियोजना निदेशक का सृजितपद भारत सरकार में संयुक्त सचिव की श्रेणी के स्तर का है। पद का मुख्यालय दिल्ली है। स्थापना अधिकारी कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने पहले ही दिनांक 19 मार्च, 2014 के अपने परिपत्र द्वारा इस रिक्ति को परिचालित कर दिया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.04.2014 है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र में इससे संबन्धित अधिक जानकारी दी गई है, जिसे अनुबंध के तौर पर संलग्न किया गया है।

(यू.के. भारद्वाज)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या. 24640359